

Haryana Staff Selection Commission

Post :- Junior Engineer (Civil), Urban Local Bodies

Morning shift Advt No 1/2016 Cat No 35

1. The basic value for vertical deflection of span to overall depth ratio for shorter span up to 3.5 m for simply supported slab is

(1) 12 (2) 20
(3) 40 (4) 35

सामान्य अवलंबित स्लेब के लिए 3.5 m तक की लघु विस्तृति के लिए विस्तृति से समग्र गहराई अनुपात से ऊर्ध्व विक्षेपण के लिए मूल मान कितना है ?

(1) 12 (2) 20
(3) 40 (4) 35

2. The minimum and maximum value of cross-sectional area of longitudinal reinforcement for column are _____ and _____ respectively.

(1) 0.12%, 4% (2) 0.6%, 8%
(3) 0.8%, 6% (4) 0.4%, 12%

कॉलम के लिए अनुदैर्घ्य प्रबलन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के न्यूनतम व अधिकतम मान क्रमशः _____ और _____ हैं।

(1) 0.12%, 4% (2) 0.6%, 8%
(3) 0.8%, 6% (4) 0.4%, 12%

3. Spacing of longitudinal bars measured along the periphery of the column shall not exceed

(1) 100 mm (2) 150 mm
(3) 200 mm (4) 300 mm

कॉलम की परिधि के साथ मापित अनुदैर्घ्य सरियों का अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए ?

(1) 100 mm (2) 150 mm
(3) 200 mm (4) 300 mm

4. The longitudinal bars shall not be _____ in diameter.

(1) < 12 mm (2) \leq 12 mm
(3) > 12 mm (4) \geq 12 mm

अनुदैर्घ्य सरियों का व्यास _____ नहीं होना चाहिए।

(1) < 12 mm (2) \leq 12 mm
(3) > 12 mm (4) \geq 12 mm

5. The section is called under reinforced section when

(1) $M_u > M_{u, lim}$ (2) $X_u > X_{u, max}$
(3) $X_u < X_{u, max}$ (4) $X_u = X_{u, max}$

एक खंड को प्रबलित खंड के अधीन कब कहा जाता है ?

(1) $M_u > M_{u, lim}$ (2) $X_u > X_{u, max}$
(3) $X_u < X_{u, max}$ (4) $X_u = X_{u, max}$

6. To design isolated column footing, working load = _____ factored load.

(1) 1.50 (2) 0.67
(3) 1.20 (4) 0.80

पृथक कॉलम आधार डिजाइन करने के लिए कार्यकारी भार = _____ खंडित भार होता है।

(1) 1.50 (2) 0.67
(3) 1.20 (4) 0.80

7. What is the dimension of A2 size drawing sheet?

- (1) 880 mm × 625 mm (2) 841 mm × 584 mm
(3) 625 mm × 450 mm (4) 594 mm × 420 mm

A2 आकार की ड्राईंग शीट का आयाम कितना होता है ?

- (1) 880 mm × 625 mm (2) 841 mm × 584 mm
(3) 625 mm × 450 mm (4) 594 mm × 420 mm

8. Give full form of CI.

- (1) Common Inspection (2) Cold Insulation
(3) Corrugated Iron (4) Cast Iron

CI का पूर्ण नाम क्या है ?

- (1) कॉमन इन्स्पेक्शन (2) कोल्ड इन्स्यूलेशन
(3) कोर्रुगेटेड आयरन (4) कास्ट आयरन

9. The values of angles are _____ degree on one side and _____ degree on other side for isometric view.

- (1) 30, 60 (2) 30, 30
(3) 45, 45 (4) 45, 60

त्रिसमलंबाक्ष दृश्य (व्यू) के लिए कोणों का मान एक तरफ _____ डिग्री और दूसरी तरफ _____ डिग्री हैं।

- (1) 30, 60 (2) 30, 30
(3) 45, 45 (4) 45, 60

10. The pitch of the stair should be between _____ degree.

- (1) 25 to 40 (2) 30 to 45
(3) 20 to 40 (4) 30 to 40

सीढ़ी का ढाल _____ डिग्री के बीच होना चाहिए।

- (1) 25 से 40 (2) 30 से 45
(3) 20 से 40 (4) 30 से 40

11. The path which has zero floats is

- (1) Sub critical path (2) Critical path
(3) Super Critical path (4) Normal path

वह पथ जिसका प्लव शून्य होता है

- (1) उप क्रांतिक पथ (2) क्रांतिक पथ
(3) अति क्रांतिक पथ (4) सामान्य पथ

12. The economic life of construction equipment is intact as long as it maintains average operating cost per

- (1) day (2) second
(3) minute (4) hour

निर्माण उपकरण का आर्थिक जीवन अक्षत रहता है बशर्ते उसका औसत परिचालन लागत प्रति _____ पर रखरखाव किया जाए।

- (1) दिन (2) सेकंड
(3) मिनट (4) घंटा

13. The wages paid in cash to workers are known as

- (1) Free wages (2) Real wages
(3) Nominal wages (4) Fair wages

मजदूरों को मजदूरी का नकद भुगतान क्या कहलाता है?

- (1) मुक्त मजदूरी (2) वास्तविक मजदूरी

- (3) सामान्य मजदूरी (4) उचित मजदूरी
14. The distance between the centres of any two adjacent fasteners shall not exceed
 (1) 32t (2) 300 mm
 (3) 450 mm (4) 32t or 300 mm
 किन्हीं दो निकटवर्ती कीलकों के बीच की दूरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए :
 (1) 32t (2) 300 mm
 (3) 450 mm (4) 32t अथवा 300 mm
15. The fire safety, corrosion and durability criteria are included in which of these theories?
 (1) Limit state of Strength (2) Limit state of Service ability
 (3) Limit state of Shear (4) Limit state of Collapse
 निम्नांकित में से किस सिद्धांत में अग्नि सुरक्षा, संक्षारण और स्थायित्व मापदंड शामिल किए जाते हैं ?
 (1) क्षमता की सीमित अवस्था (2) सेवा योग्यता की सीमित अवस्था
 (3) अपरूपण की सीमित अवस्था (4) निपात की सीमित अवस्था
16. The buckling class for channel section is
 (1) a (2) b
 (3) c (4) d
 चैनल खंड के लिए आकुंचन श्रेणी कौन सी है ?
 (1) a (2) b
 (3) c (4) d
17. Which structure is more economical?
 (1) Light weight structure (2) Determinate structure
 (3) Indeterminate structure (4) Cantilever structure
 कौन सी संरचना अधिक किफायती है ?
 (1) हलके भार वाली संरचना (2) निश्चित संरचना
 (3) अनिश्चित संरचना (4) कैंटीलीवर संरचना
18. The plane in which stresses in one of the three mutually perpendicular axes are zero, the state of stress is known as
 (1) Plane stress (2) Zero stress
 (3) Tensile stress (4) Uniform stress
 जिस समतल में तीन पारस्परिक अभिलंबाक्षों में से एक प्रतिबल शून्य है, इस प्रतिबल अवस्था को क्या कहते हैं?
 (1) समतल प्रतिबल (2) शून्य प्रतिबल
 (3) तनन प्रतिबल (4) एकसमान प्रतिबल
19. The planes that carry maximum and minimum direct stresses are
 (1) Parallel (2) At acute angle to each other
 (3) Mutually perpendicular (4) At obtuse angle to each other
 वे समतल जो अधिकतम व न्यूनतम प्रत्यक्ष प्रतिबल धारण करते हैं :
 (1) समांतर (2) एक दूसरे के न्यून कोण पर
 (3) परस्पर लंबवत् (4) एक दूसरे के अधिक कोण पर
20. If the end of the beam extends beyond the support, it is termed as
 (1) Overhanging beam (2) Simply supported beam
 (3) Cantilever beam (4) Continuous beam

यदि बीम का सिरा आधार से आगे तक जाता है, तो इसे क्या कहते हैं ?

- (1) प्रलंबी बीम (2) सामान्य अवलंबित बीम
(3) कैटिलीवर बीम (4) सतत बीम

21. Maximum stress at which stress is proportional to strain is called

- (1) Yield point (2) Breaking point
(3) Elastic limit (4) Proportional limit

उस अधिकतम प्रतिबल को क्या कहते हैं जहाँ प्रतिबल विकृति के समानुपातिक होता है ?

- (1) पराभव बिन्दु (2) भंजन बिन्दु
(3) प्रत्यास्थ सीमा (4) समानुपातिक सीमा

22. Which strength is determined on dividing the load at the time of fracture by original cross section area?

- (1) Tensile strength (2) Rupture strength
(3) Yield strength (4) Shear strength

मूल अनुप्रस्थ काट क्षेत्र द्वारा विभंजन के समय भार का विभाजन करने पर निर्धारित क्षमता कौनसी है ?

- (1) तनन क्षमता (2) संविदारण क्षमता
(3) पराभव क्षमता (4) अपरूपण क्षमता

23. What is the compressive strength after 28 days for M20 concrete?

- (1) 10 N/sq.mm. (2) 20 N/sq.mm.
(3) 30 N/sq.mm. (4) 40 N/sq.mm.

M20 कंक्रीट के लिए 28 दिन के बाद संपीड्य क्षमता कितनी होती है ?

- (1) 10 N/sq.mm. (2) 20 N/sq.mm.
(3) 30 N/sq.mm. (4) 40 N/sq.mm.

24. What is the density of normal concrete?

- (1) 2200 to 2600 kg/cu.m. (2) 2000 to 2400 kg/cu.m.
(3) 2000 to 2200 kg/cu.m. (4) 2200 to 2300 kg/cu.m.

सामान्य कंक्रीट का घनत्व कितना होता है ?

- (1) 2200 से 2600 kg/cu.m. (2) 2000 से 2400 kg/cu.m.
(3) 2000 से 2200 kg/cu.m. (4) 2200 से 2300 kg/cu.m.

25. From the following which one is not a personal error?

- (1) Error in Manipulation (2) Inaccurate Centering
(3) Slip (4) Eccentricity of Verniers

निम्नांकित में से कौन सी एक व्यक्तिगत त्रुटि नहीं है ?

- (1) परिचालन में त्रुटि (2) अयर्थार्थ केन्द्रण
(3) स्लिप (4) वर्नियरों की उत्केन्द्रता

26. Process of determining the difference of elevation of stations from observed vertical angles and known distance is

- (1) Tacheometry (2) Traversing
(3) Trigonometrical Levelling (4) Contouring

प्रेक्षित ऊर्ध्व कोण और ज्ञात दूरी तक स्थानों की ऊँचाई के अंतर को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है ?

- (1) टैकीओमिती (2) चक्रमण
(3) त्रिकोणमितीय तलेक्षण (4) कंटूरिंग

27. Which is widely used as coagulant in the water treatment plants ?

- (1) Charcoal (2) Bitumen

- (3) Alum (4) Asphalt
जल उपचारित संयंत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कोएगुलेंट कौन सा है ?
(1) चारकोल (2) बिटुमेन
(3) एलम (4) एस्फाल्ट
28. The size of field book is
(1) 20 cm × 12 cm (2) 18 cm × 13 cm
(3) 19 cm × 14 cm (4) 20 cm × 11 cm
क्षेत्र पुस्तिका (फिल्ड बुक) का आकार कितना होता है ?
(1) 20 cm × 12 cm (2) 18 cm × 13 cm
(3) 19 cm × 14 cm (4) 20 cm × 11 cm
29. How many links are there in 20 m and 30 m chains?
(1) 50 (2) 80
(3) 100 (4) 90
20 m और 30 m ज़रीब में कितनी कड़ियां होती हैं ?
(1) 50 (2) 80
(3) 100 (4) 90
30. In deep foundation depth of foundation is _____ to the width of foundation.
(1) > (2) <
(3) = (4) ≥
गहरी नींव में नींव की गहराई नींव की चौड़ाई के _____ होती है।
(1) > (2) <
(3) = (4) ≥
31. Which is not a type of coffer dam from the following?
(1) Rock fill coffer dam (2) Double-wall coffer dam
(3) Pneumatic coffer dam (4) Earthen coffer dam
निम्नांकित में से कौन सा कॉफर बांध का प्रकार नहीं है?
(1) पत्थर भरा कॉफर बांध (2) दोहरी दीवार कॉफर बांध
(3) वायवीय कॉफर बांध (4) मिट्टी का कॉफर बांध
32. The bed is defined as the
(1) Impression on top face of brick. (2) Lower portion of brick.
(3) Half cut portion of brick. (4) Brick with three corners.
संस्तर की परिभाषा है
(1) ईंट के ऊपरी फलक पर प्रभाव (2) ईंट का निचला हिस्सा
(3) ईंट का आधा कटा हिस्सा (4) तीन कोनों वाली ईंट
33. The unit of per capita demand is
(1) litre per capita (2) litre per day
(3) capita per day (4) litre per capita per day
प्रति व्यक्ति माँग की इकाई क्या है ?
(1) लीटर प्रति व्यक्ति (2) लीटर प्रति दिन
(3) व्यक्ति प्रति दिन (4) लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
34. Which of the following is not a type of springs?

- (1) Gravity (2) Surface
(3) Deep (4) Artesian
- निम्नांकित में से कौन सा कमाना का प्रकार नहीं है ?
(1) गुरुत्व (2) सतह
(3) गहरा (4) उत्सूत
35. At a certain distance from the well, there is no appreciable depression of water-table from the central line of the well is called
(1) Reduce of influence (2) Depressions head
(3) Cone of derisions (4) Depth of well
- कुएँ से कुछ निश्चित दूरी पर, कुएँ की केन्द्रीय रेखा से जल-स्तर की सुप्रेक्ष्य अवनति नहीं होती, यह क्या कहलाती है?
(1) प्रभाव की कमी (2) अवनति शीर्ष
(3) उपहास शंकु (4) कुएँ की गहराई
36. The rainfall is measured in
(1) Rain gauge (2) Rain pan
(3) Rain scale (4) Rain bottle
- वर्षा का मापन किसमें किया जाता है ?
(1) वर्षा मापी (2) वर्षा पैन
(3) वर्षा स्केल (4) वर्षा बोतल
37. The fullform of W.M.O.
(1) World Monitoring Organization (2) World Meteorological Organization
(3) World Methodological Observation (4) World Mapping Operating
- W.M.O. का पूरा रूप क्या है ?
(1) वर्ल्ड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन (2) वर्ल्ड मेटिओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
(3) वर्ल्ड मेथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन (4) वर्ल्ड मैपिंग ओपरेटिंग
38. In MKS the unit of viscosity is
(1) kgf sec/sq. m (2) dyne sec/sq. cm
(3) Pa.s (4) N.s/sq. m
- MKS में, श्यानता की इकाई क्या है ?
(1) kgf sec/sq. m (2) dyne sec/sq. cm
(3) Pa.s (4) N.s/sq. m
39. The centre of gravity for horizontally immersed plane will be
(1) above the center of pressure (2) below the center of pressure
(3) coincide with the center of pressure (4) can't say specifically.
- क्षैतिज रूप से निमज्जित तल के लिए गुरुत्व केन्द्र कहाँ होगा ?
(1) दाब केन्द्र के ऊपर (2) दाब केन्द्र के नीचे
(3) दाब केन्द्र के संपाती (4) विशिष्ट रूप से नहीं कह सकते ।
40. The service life of a treated timber sleepers can be taken as
(1) 7 to 10 years (2) 10 to 14 years
(3) 15 to 17 years (4) 2 to 5 years
- उपचारित इमारती लकड़ी के स्लीपरोँ का कार्य-आयु कितनी मानी जा सकती है ?
(1) 7 से 10 वर्ष (2) 10 से 14 वर्ष
(3) 15 से 17 वर्ष (4) 2 से 5 वर्ष
41. Which fastening is used to keep the rails in their correct position?

- (1) Fish plates (2) Chairs & Keys
(3) Broad Plates (4) Hook Plates
- रेल को उनकी सही स्थिति में बनाए रखने के लिए किस कीलक का उपयोग किया जाता है ?
(1) फिश प्लेट (2) चेयर व की
(3) ब्रोड प्लेट (4) हुक प्लेट
42. The cost of railway track is directly proportional to the width its
(1) gauge (2) sleepers
(3) ballast (4) rail
- रेलवे ट्रैक की लागत उसकी किस चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती है ?
(1) गेज (2) स्लीपर
(3) गिट्टी (4) रेल
43. Net income is the difference between gross income and
(1) outgoing (2) salvage value
(3) book value (4) municipal taxes
- शुद्ध आय सकल आय और _____ बीच का अंतर है ।
(1) व्यय (2) बचे माल की कीमत
(3) क्रय कीमत (4) नगरीय कर
44. Which method is not appropriate for calculating depreciation?
(1) Sinking fund method (2) Straight line method
(3) Quantity survey method (4) Average Percentage method
- मूल्यहास की गणना के लिए कौनसी पद्धति उपयुक्त नहीं है ?
(1) डूबत निधि पद्धति (2) सीधी कटौती पद्धति
(3) मात्रा सर्वेक्षण पद्धति (4) औसत प्रतिशत पद्धति
45. Which of the following parameter is included in Abstract Sheet?
(1) Length (2) Amount
(3) Area (4) Height
- निम्नांकित में से किस पैरामीटर को सारांश शीट में शामिल किया जाता है
(1) लंबाई (2) मात्रा
(3) क्षेत्रफल (4) ऊंचाई
46. The cracks which partly or completely separate the fibres of wood is
(1) Dead Wood (2) Chemical Stain
(3) Shakes (4) Knots
- वे दरारे जो लकड़ी के तंतुओं को आंशिक या पूरी तरह से अलग कर देती है
(1) मृत लकड़ी (2) रासायनिक अभिरंजन
(3) विदर (4) गांठ
47. Fire bricks are made from
(1) fire sand (2) fire clay
(3) acidic marble (4) stone powder
- अग्निह ईंट किससे बनी होती हैं ?
(1) अग्निह रेत (2) अग्निह मिट्टी
(3) अम्लीय संगमरमर (4) प्रस्तर चूर्ण
48. In IS soil classification, symbol M represents
(1) Boulder (2) Moorum

- (3) Silt (4) Sand
IS मृदा वर्गीकरण में, M चिह्न क्या दर्शाता है ?
(1) बॉल्डर (2) मूरम
(3) गाद (4) रेत
49. A sample is that in which the natural structure and properties remain preserved is called
(1) Disturbed sample (2) Undisturbed sample
(3) Rotary sample (4) None of these
वह नमूना जिसमें प्राकृतिक संरचना व गुण संरक्षित रहते हैं
(1) विक्षुब्ध नमूना (2) अविक्षुब्ध नमूना
(3) घूर्णन नमूना (4) इनमें से कोई नहीं
50. The permeability of soil varies approximately
(1) as the square of grain size (2) inversely as the square grain size
(3) as the cube of grain size (4) inversely as the cube of grain size
मृदा की पारगम्यता लगभग भिन्न होती है
(1) कण आकार के वर्ग के अनुरूप (2) वर्गाकार कण आकार के प्रतिलोमित अनुरूप
(3) कण आकार के घन के अनुरूप (4) कण आकार के घन के प्रतिलोमित अनुरूप
51. Haryana Government made PGT transfers in education department by which transparency system ?
(1) EDUSAT (2) HSWAN
(3) GIS Portal (4) MIS Portal
हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से PGT के स्थानान्तरण किये हैं?
(1) EDUSAT (2) HSWAN
(3) GIS पोर्टल (4) MIS पोर्टल
52. Which village is declared as first 'Swaprerit Adarsh Gaon' (Self-motivated Ideal Village) of Haryana ?
(1) Sui (Bhiwani) (2) Ratia (Fatehabad)
(3) Rania (Sirsa) (4) None of these
कौन सा गाँव हरियाणा का पहला 'स्वप्रेरित आदर्श गाँव' घोषित किया गया है ?
(1) सूई (भिवानी) (2) रातिया (फतेहाबाद)
(3) रानिया (सिरसा) (4) इनमें से कोई नहीं
53. Which historical sites of Haryana was excavated under the guidance of Dr. Suraj Bhan ?
(1) Mitathal (2) Banawali
(3) Ropar (4) None of these
डॉ. सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी?
(1) मीताथल (2) बनावली
(3) रोपड़ (4) इनमें से कोई नहीं
54. How many subdivisions are there in Haryana?
(1) 70 (2) 72
(3) 69 (4) None of these
हरियाणा में कितने उपमंडल है ?
(1) 70 (2) 72
(3) 69 (4) इनमें से कोई नहीं

55. In Haryana, Lifetime Achievement award of 2 lakh rupees for men in sports will be given on the name of

- (1) Mahavir Singh (2) Prithviraj Chauhan
(3) Bhagat Singh (4) Maharana Pratap

हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जायेगा?

- (1) महावीर सिंह (2) पृथ्वीराज चौहान
(3) भगत सिंह (4) महाराणा प्रताप

56. Who is present Chairman of Haryana Pradesh Congress Committee ?

- (1) Ashok Tanwar (2) Bhupinder Singh Hooda
(3) Dr. Sita Ram (4) Charanjeet Singh Rori

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?

- (1) अशोक तनवर (2) भूपिन्दर सिंह हूडा
(3) डॉ. सीताराम (4) चरणजीत सिंह रोरी

57. Aruna Asaf Ali of Panchkula, Haryana is wellknown

- (1) Activist (2) Publisher
(3) Politician (4) All of these

पंचकुला, हरियाणा के अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध _____ है।

- (1) एक्टिविस्ट (2) पब्लिशर
(3) राजनीतिज्ञ (4) ये सभी

58. The biggest Cactus-Garden of Asia is situated in this city of the Haryana state :

- (1) Panchkula (2) Kaithal
(3) Faridabad (4) Gurgaon

एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है :

- (1) पंचकुला में (2) कैथल में
(3) फरीदाबाद में (4) गुडगाँव में

59. In which of the following districts Kunal Pre-Harappan site was discovered ?

- (1) Hisar (2) Sirsa
(3) Fatehabad (4) Bhiwani

निम्नलिखित में से किस जिले में कुनाल पूर्व-हड़प्पा स्थान खोजा गया है?

- (1) हिसार (2) सिरसा
(3) फतेहाबाद (4) भिवानी

60. Which of the following river is known by the name of Aruna in ancient period ?

- (1) Sahibi (2) Indori
(3) Markanda (4) Ghaggar

निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी ?

- (1) साहिबी (2) इन्दौरी
(3) मारकण्डा (4) घग्गर

61. Which is the State Bird of Haryana ?

- (1) Cuckoo (2) Monal
(3) Black Francolin (4) Peacock

हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है?

- (1) कोयल (2) मोनल
(3) काला तितर (ब्लैक फ्रैंकोलिन) (4) मोर

62. The only temple of Lord Parsuram in India is situated in Haryana in the district of

- (1) Panipat (2) Bhiwani
(3) Rewari (4) Jind

भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के इस जिले में स्थित है:

- (1) पानीपत (2) भिवानी
(3) रेवाड़ी (4) जींद

63. Parineeti Chopra was born in the district of

- (1) Faridabad (2) Panchkula
(3) Chandigarh (4) Ambala

परिणीति चोपड़ा का जन्म इस जिले में हुआ था

- (1) फरीदाबाद (2) पंचकुला
(3) चंडीगढ़ (4) अंबाला

64. In 1947 when India was declared Independent, Haryana was a part of which of the following States ?

- (1) Delhi (2) Himachal Pradesh
(3) Punjab (4) None of these

1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था?

- (1) दिल्ली (2) हिमाचल प्रदेश
(3) पंजाब (4) इनमें से कोई नहीं

65. Aravalli Ranges are situated in which part of Haryana ?

- (1) Eastern (2) Southern
(3) Northern (4) None of these

अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित हैं?

- (1) पूर्वी (2) दक्षिणी
(3) उत्तरी (4) इनमें से कोई नहीं

66. Rewri and Gajjak are well-known items of which city of Haryana ?

- (1) Pinjore (2) Panchkula
(3) Rohtak (4) Mewat

रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तुएँ हैं ?

- (1) पिंजौर (2) पंचकुला
(3) रोहतक (4) मेवात

67. Who from the following is Golf player of Haryana, who won the Silver Medal at Asian Games-2010 ?

- (1) Sumit Khranger (2) Chandgi Ram
(3) Abhinav Lohan (4) Ramesh Kumar

निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स-2010 में रजत पदक जीता था?

- (1) सुमीत ख्रंगर (2) चंदगी राम
(3) अभिनव लोहान (4) रमेश कुमार

68. Near which district of Haryana Morni hills are situated ?

- (1) Panchkula (2) Karnal
(3) Yamunanagar (4) Ambala

हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं?

- (1) पंचकुला (2) करनाल
(3) यमुनानगर (4) अम्बाला
69. Who excavated the Indus Valley Civilization Site Siswal ?
(1) D.R. Sahani (2) Suraj Bhan
(3) R.D. Bennerji (4) J.P. Joshi
सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिसवाल का उत्खनन किसने किया ?
(1) डी. आर. साहनी (2) सुरज भान
(3) आर.डी. बैनर्जी (4) जे.पी. जोशी
70. In which of the following city of Haryana, the Metro reached first ?
(1) Sonipat (2) Rohtak
(3) Gurgaon (4) Ambala
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुँची ?
(1) सोनीपत (2) रोहतक
(3) गुडगाँव (4) अम्बाला
71. The tomb of famous Sufi Saint Shaikh Chelli is at
(1) Hansi (2) Sonipat
(3) Panipat (4) Thanesar
प्रसिद्ध सूफी सन्त शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है ?
(1) हाँसी (2) सोनीपत
(3) पानीपत (4) थानेसर
72. Which award is given by Haryana Urdu Academy for excellence in Urdu Literature ?
(1) Mirza Galib Award (2) Urdu Sahitya Ratna
(3) Hali Award (4) None of these
हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ?
(1) मिर्जा गालिब पुरस्कार (2) उर्दू साहित्य रत्न
(3) हाली पुरस्कार (4) इनमें से कोई नहीं
73. As per recent announcement of Haryana Government, headquarter of 'Haryana 100' (a centralised Police Emergency system) will be in which district of Haryana ?
(1) Panchkula (2) Bhiwani
(3) Ambala (4) Chandigarh
हरियाणा सरकार की हाल की घोषणा के अनुसार 'हरियाणा 100' (एक केंद्रीकृत पुलिस आपातकालीन तंत्र) का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में होगा?
(1) पंचकुला (2) भिवानी
(3) अम्बाला (4) चंडीगढ़
74. Who inaugurates the International Gita Mahotsav 2017 in Haryana ?
(1) Manohar Lal Khattar (2) Narendra Modi
(3) Ram Nath Kovind (4) Sushma Swaraj
हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का शुभारंभ किसने किया था?
(1) मनोहरलाल खट्टर (2) नरेंद्र मोदी
(3) रामनाथ कोविंद (4) सुषमा स्वराज

75. The three famous battles of Indian History were fought on the plains at Panipat, except in the year

- (1) 1526 (2) 1556
(3) 1761 (4) 1656

भारतीय इतिहास के तीन प्रसिद्ध युद्ध पानीपत के मैदानों पर हुए हैं, सिवाय वर्ष

- (1) 1526 (2) 1556
(3) 1761 (4) 1656

76. Delhi became the capital of India in

- (1) 1931 (2) 1921
(3) 1947 (4) 1950

दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी ?

- (1) 1931 (2) 1921
(3) 1947 (4) 1950

77. Who was appointed as the new chairman of FTII Pune ?

- (1) Nassiruddin Shah (2) Anupam Kher
(3) Navazuddin Siddique (4) Irfan Khan

FTII पूना के नये अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ?

- (1) नसिरुद्दीन शाह (2) अनुपम खेर
(3) नवाजुद्दीन सिद्दिकी (4) इरफान खान

78. Kalahari Desert is in

- (1) South Africa (2) India
(3) U.S.A. (4) Australia

कालाहारी मरुस्थल कहाँ है ?

- (1) दक्षिण अफ्रीका (2) भारत
(3) यू.एस.ए. (4) ऑस्ट्रेलिया

79. Who did write Hind Swaraj ?

- (1) Vinoba Bhave (2) Gandhiji
(3) Sardar Patel (4) Jawaharlal Nehru

"हिन्द स्वराज" पुस्तक किसने लिखी थी ?

- (1) विनोबा भावे (2) गाँधीजी
(3) सरदार पटेल (4) जवाहरलाल नेहरू

80. In a line of 20 students, Kunal stood at 15th position from left and Kartik stood at 15th position from right. How many students would be there between Kunal and Kartik ?

- (1) 7 (2) 8
(3) 9 (4) 6

20 विद्यार्थियों की कतार में कुनाल बायें से 15वें स्थान पर और कार्तिक दायें से 15वें स्थान पर है, तो कुनाल और कार्तिक के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे ?

- (1) 7 (2) 8
(3) 9 (4) 6

81. Ramesh is the only boy child of his parents. If the person is the only daughter of his mother. What would she call him ?

- (1) Aunty (2) Sister
(3) Brother (4) None of these

रमेश उसके माँ-बाप का एक ही लड़का है। यदि यह व्यक्ति उसकी माता की एक ही लड़की है तो वह लड़की उसे क्या कहकर बुलायेगी ?

- (1) चाची (2) बहन
(3) भाई (4) इनमें से कोई नहीं

82. Z1J4 : Y2I5 :: B6Q8 : ?

Choose the same relationship.

- (1) C7I9 (2) B5T8
(3) Z3H5 (4) A7P9

Z1J4 : Y2I5 :: B6Q8 : ?

समान संबंध का चयन कीजिए।

- (1) C7I9 (2) B5T8
(3) Z3H5 (4) A7P9

83. If DRAGON = 123456, NDOGAR = ?

Fill in the blank.

- (1) 642351 (2) 152643
(3) 625314 (4) 615432

यदि DRAGON = 123456, NDOGAR = ?

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

- (1) 642351 (2) 152643
(3) 625314 (4) 615432

84. If $1/3 + 1/2 + 1/x = 4$, then the value of x is

- (1) 5/18 (2) 6/19
(3) 18/5 (4) 24/11

यदि $1/3 + 1/2 + 1/x = 4$ तो x का मान है

- (1) 5/18 (2) 6/19
(3) 18/5 (4) 24/11

85. The average of 2, 7, 6 and x is 5 and the average of 18, 1, 6, x and y is 10. What is the value of y ?

- (1) 5 (2) 10
(3) 20 (4) 30

2, 7, 6 और x का औसत 5 है और 18, 1, 6, x और y का औसत 10 है, तो y का मान क्या है ?

- (1) 5 (2) 10
(3) 20 (4) 30

86. Two-third of a positive number and $25/216$ of its reciprocal are equal. The number is

- (1) 5/12 (2) 12/5
(3) 25/144 (4) 144/25

एक धनात्मक संख्या का दो-तिहाई और उसके व्युत्क्रम का $25/216$ समान है, तो संख्या है

- (1) 5/12 (2) 12/5
(3) 25/144 (4) 144/25

87. 76% of the students in a school are boys. If the number of girls is 204, then the total number of students is

- (1) 760 (2) 800
(3) 850 (4) 900

एक स्कूल में 76% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या है

- (1) 760 (2) 800
(3) 850 (4) 900

88. Which hormone is secreted if the sugar level in blood rises ?

- (1) Peptide (2) Thyroid
(3) Testosterone (4) Insulin

यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ?

- (1) पेप्टाइड (2) थाइरॉइड
(3) टेस्टोस्टेरोन (4) इंसुलिन

89. Due to which phenomenon, Sun appears reddish at the time of Sunrise ?

- (1) Scattering (2) Reflection
(3) Polarization (4) TIR

किस घटना के कारण सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है ?

- (1) प्रकीर्णन (2) परावर्तन
(3) ध्रुवीकरण (4) TIR

90. Which lens is prescribed if its power is + 2.0 D

- (1) Plane (2) Convex
(3) Concave (4) Plano Concave

कौन सा लेंस अनुशंसित किया जाता है यदि इसकी पावर + 2.0 D है ?

- (1) समतल (2) उत्तल
(3) अवतल (4) समतल-अवतल

91. Supply suitable article in the following blank if needed :

_____ Ganga is a sacred river.

- (1) A (2) An
(3) The (4) No article

92. Supply suitable preposition in the following blank :

You must not lose your sleep _____ this problem.

- (1) in (2) about
(3) of (4) over

93. Give one word substitute for the following expression :

_____ is a form of government with a monarch at the head.

- (1) Monarchy (2) Secular
(3) Plutocracy (4) Thearchy

94. Select the word from the following that is most similar in meaning to the word in capital letters:
HUTCH

- (1) Expose (2) Cabin
(3) Spoil (4) Mar

95. Select the word from the following that is opposite in meaning to the word in capital letters :

SCRUTINY

- (1) Oversight (2) Inspection
(3) Search (4) Investigation

96. वार्तालाप का संधि-विच्छेद है
(1) वार्ता + अलाप (2) वार्ता + आलाप
(3) वार्त + आलाप (4) वात + आलाप
97. निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है ?
(1) यथाशक्ति (2) वेमतलब
(3) दाल-भात (4) आमरण
98. विपत्ति धकेलना मुहावरे का अर्थ है
(1) मुसीबत खत्म करना (2) पश्चाताप करना
(3) मुसीबत को दूर करना (4) मुसीबत झेलना
99. वस्त्र शब्द का पर्यायवाची है
(1) वसन, अम्बर (2) रसाल, सहकार
(3) भानु, पतंग (4) मोषक, खनक
100. निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है ?
(1) चौदह (2) बाछ्छा
(3) खीर (4) पुष्प
-